

इसे वेबसाईट [www.govtpressmp.nic.in](http://www.govtpressmp.nic.in)  
से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



# मध्यप्रदेश राजपत्र

( असाधारण )

## प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 511]

भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 9 दिसम्बर 2016—अग्रहायण 18, शक 1938

विधि और विधायी कार्य विभाग

भोपाल, दिनांक 9 दिसम्बर 2016

क्र. 19402-299-इक्कीस-अ-(प्रा.).—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, मध्यप्रदेश निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन) तृतीय संशोधन विधेयक, 2016 (29 सन् 2016) का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
राजेश यादव, अतिरिक्त सचिव.

## MADHYA PRADESH BILL

No. 29 OF 2016

**THE MADHYA PRADESH NIJI VISHWAVIDYALAYA (STHAPANA AVAM SANCHALAN) TRITIYA SANSHODHAN VIDHEYAK, 2016.****A Bill further to amend the Madhya Pradesh Niji Vishwavidyalaya ( Sthapana Avam sanchalan) Adhinyam,2007.**

Be it enacted by the Madhya Pradesh Legislature in the Sixty-seventh year of the Republic of India as follows:—

**Short title.** 1. This Act may be called the Madhya Pradesh Niji Vishwavidyalaya ( Sthapana Avam Sanchalan)Tritiya Sanshodhan Adhinyam, 2016.

**Amendment of Schedule.** 2. In Schedule to the Madhya Pradesh Niji Vishwavidhyalaya (Sthapana Avam Sanchalan) Adhinyam, 2007 ( No. 17 of 2007 ), after serial number 23 and entries relating thereto, the following serial number and entries relating thereto shall be added, namely ;—

| S.No. | Name of private university  | Name of sponsoring body   | Mode of forming sopnsoring body   | Main campus  | Jurisdiction              |
|-------|-----------------------------|---|---|--|---------------------------|
| (1)   | (2)                         | (3)   | (4)   | (5)  | (6)                       |
| "24.  | Avantika University, Ujjain | Maharashtra Academy of Engineering and Educational Research, 124, Ex- Servicemen Colony, Paud Road, Kothrud, Pune | Public Trust registered under the Bombay Pubic Trust Act, 1950 ( Bombay Act No. 29 of 1950) | Avantika University, Vishvanathpuram Gram Lekoda, Tehsil and District Ujjain | Whole of Madhya Pradesh". |

## STATEMENT OF OBJECTS AND REASONS

In Section 5 of the Madhya Pradesh Niji Vishwavidyalaya ( Sthapana Avam Sanchalan ) Adhinyam, 2007 ( No. 17 of 2007 ), it is provided that the Regulatory Commission Constitued under the Act shall evaluate the proposal of establishment of Private University in the State. In the light of the said provision, the Regulatory Commission has recommended to establish the Private University, namely, Avantika University, Vishvanathpuram, Gram Lekoda, Tehsil and District Ujjain. In the light of Section 6 of the said Act, the State Government has issued the letter of intent to the sponsoring body of the said University, with regard to the establishment of the said University. Section 9 of the said Act provides that after being satisfied on considering the report submitted by the Regulatory Commission, Private University shall be established by incorporating the name and description there of in the Schedule to the said Act.

2. Hence this Bill.

Bhopal :  
Dated the 6th December, 2016

JAIBHAN SINGH PAWAIYA  
Member-in-charge.